



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)  
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 356 अ]

नई दिल्ली, बुध्दिवार, नवम्बर 5, 1981/कार्तिक 14, 1903

No. 356 A] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 1981/KARTIKA 14, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1981

सा० का० नि० 577A(अ) — केन्द्रीय सरकार, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 51) की छठी अनुसूची के पैरा VI के उप-पैरा (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, प्राधिकरण से परामर्श करने के पश्चात् यह अधिसूचित करती है कि अनुज्ञापिधारी अवक्षयण के लिए प्रति वर्ष ऐसी राशि की व्यवस्था करेगा, जो निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार संगणित की जाएगी, अर्थात् —

1. अनुज्ञापिधारी द्वारा अवक्षयण की व्यवस्था करना — (क) अनुज्ञापिधारी अवक्षयण के लिए —

(i) ऐसी राशि की व्यवस्था करेगा जो यदि समस्त विहित अवधि के दौरान प्रति वर्ष अर्पण कर दी जाती है और जिसका 1 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से सकृद्वृद्धि व्याज संभय किया जाता है, तो विहित अवधि की समाप्ति पर, उपक्रम की वृद्धियों में पहले बढ़े-छाने वाली गई और अर्पण कर दी गई राशि को हिमाव में सेने के पश्चात् आस्ति की मूल लागत के मध्ये प्रतिशत के बराबर राशि हो जाएगी। संश्लिष्ट प्रतिशेन पर वार्षिक व्याज, राजस्व में से और वार्षिक धृद्धि निशेन में से स्वर्च के रूप में अनुज्ञान किया जाएगा, या

(ii) ऐसी राशि की व्यवस्था की जाएगी, जो विहित अवधि से, आस्ति की मूल लागत के मध्ये प्रतिशत को स्वभाजित करके निकाली है।

परन्तु यदि किसी अनुज्ञापिधारी ने, विद्युत (प्रदाय) संशोधन अधिनियम, 1978 (1978 का 23) के प्रारम्भ के पूर्व किसी विनिष्ट पद्धति का विकल्प ले लिया है, तो वह उसी पद्धति का अनुसरण करेगा रहेगा।

(ख) यदि कोई नियत आस्ति अग्रचयन, अर्पणपत्ता, अनिरेक या अन्य किसी कारणवश उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं रह जाती है तो अनुज्ञापिधारी की वृद्धियों में यह वणित किया जाएगा कि अब वह प्रयुक्त नहीं होगी है और उसकी वाचत और अवक्षयण राजस्व मध्ये प्रभाण के रूप में अनुज्ञान नहीं किया जाएगा।

(ग) यदि उपक्रम की वृद्धियों में कोई आग्नि, उसकी मूल लागत के 10 प्रतिशत या उससे कम तक हृमित कर दी गई है, तो उस आस्ति की वाचत और अवक्षयण अनुज्ञान नहीं किया जाएगा।

(घ) अवक्षयण की बकाया, विहित अवधि को शेष अवधि पर समीकृत संशयों द्वारा बढ़े-छाने वाली जा सकेगी।

2. अवक्षयण के सिद्धान्तों के लागू होने की अवधि :—ये सिद्धान्त क्रमशः अप्रैल, 1980, 1981 के पहले दिन से सारम्भ होने वाले और मार्च, 1981, 1982 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के अवक्षयण के प्रभाण को लागू होंगे।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना में, "विहित अवधि" से, इस अधिसूचना की अनुसूची में विनिष्ट आस्तियों के सम्बन्ध में, ऐसी आस्ति के सम्बन्ध में उससे निनिर्दिष्ट वर्षों की संख्या या अवधि, जो प्रत्येक दशा में, उस लेखा वर्ष के ठीक अगले लेखा वर्ष से सारम्भ होगी, जिसमें कारखान में उपयोग के लिए, विनिष्ट आस्ति उपलब्ध हुई थी, अभिप्रेत है।

अनुसूची	आवृत्ति का वर्णन	वर्षों की संख्या या अवधि	
आवृत्ति का वर्णन	वर्षों की संख्या या अवधि	वर्षों की संख्या या अवधि	
क. पूर्ण हक वाली स्वामित्वाधीन भूमि	अनंत काल	(ii) अन्य	एकसौस
ख. पट्टे के अधीन भागीदार भूमि—		(ख) स्थानांतरण, जिसके अनंत काल के कनेक्शन भी हैं	तीस
(क) भूमि में निविदा के लिए	पट्टे की अवधि, या पट्टे के संप्रदान के अनंत काल पर शेष अनंतकाल	(ग) (च) नष्टित प्रस्ताव—	
(ख) स्थान की संपादन करने की लागत के लिए	स्थान की संपादन करने की लागत के पट्टे की अवधि अनंतकाल	(i) स्टेशन टाइप	तीस
		(ii) पोस्ट टाइप	एकसौस
		(iii) मुख्यकारी संपादन	तीस
ग. नई अवधि की गई आवृत्ति—		(घ) वैदिक	दस
(क) जनन केन्द्रों में स्थित और मशीनरी, जिसके अनंत काल के आधार भी हैं		(अ) (i) भूमिगत केवल जिनके अनंत काल के आधार भी हैं।	सालास
(i) जल-विद्युत	पैंतीस	(ii) केवल डस्ट प्रणाली	साठ
(ii) वाष्प-विद्युत	एकसौस	(अ) ऊपरीकी लाइन, जिनके अनंत काल के आधार भी हैं—	
(iii) टोपल-विद्युत	एकसौस	(i) 66 किलोवाट से उच्चतर नामीय पैसीस	पैंतीस
(ख) शीतलन टाइप और परिवहनीय जल पद्धति	तीस	आवृत्तियों पर प्रचालन करने वाले संविधान के आधार पर लाइन।	
(ग) द्रव्यावली के रूप में जल विद्युत पद्धति का भाग है, जिनके अनंत काल के आधार भी हैं—		(ii) 13 2 किलोवाट से उच्चतर नामीय	तीस
(i) बांध अधिलेख मार्ग, अधिकांश एक सी और नहरें पद्धति के आधार पर प्रचालन और आधुनिकीकरण	एक सी	किन्तु 66 किलोवाट से अधिक नामीय बोल्डताओं पर प्रचालन करने वाले लाइन के आधार पर लाइन।	
(ii) प्रचालित कभीट पाइपलाइन, चार्जिंग और महासि टैप, इत्यादि पाइप लाइन, ग्लोबल द्वारा दस्तावेजों के, दस्तावेजों के नियंत्रण वाले और अन्य दस्तावेजों के गणना	एक सी	(iii) दस्तावेज या पद्धति के आधार पर लाइन।	एकसौस
(घ) स्थाई प्रकृति के भवन और निवास		(iv) अधिपति के आधार पर लाइन	तीस
हंजीनियरी संकर्म, जो उपर उल्लिखित नहीं किए गए हैं—		(अ) मोटर	एकसौस
(i) कार्यालय और प्रदर्शन कक्ष	तीस	(ब) स्थानांतरित यान	तीस
(ii) जिसमें ताप-विद्युत जनन भी संयोजित है	तीस	(ग) स्थानिक मशीन प्रीजान	तीस
(iii) जिसमें जल-विद्युत जनन पैसीस संयोजित है	पैंतीस	(घ) आवातुकूलन संयंत्र—	
(iv) अस्थाई निर्माण जैसे कारखाने या संरचनाएं	एक सी	(i) स्थानिक	एकसौस
(v) कच्चे मालों से मिले माल	एक सी	(ii) सुबाह्य	तीस
(vi) अन्य	एकसौस	(अ) (i) कार्यालय फर्निचर और फिटिंग	तीस
(ब) ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्रियोस्क, उप-स्टेशन उपकरण और अन्य नियत माध्यम (जिनके अनंत काल के आधार भी हैं) —		(ii) कार्यालय उपकरण	दस
(i) 100 किलोवाट एम्पियर और पैसीस	पैंतीस	(iii) आन्तरिक तार व्यवस्था, जिसके अनंत काल के आधार भी हैं	एक सी
उनसे अधिक की क्षमता वाले ट्रांस-		(iv) सड़क प्रकाश फिटिंग	एकसौस
		(अ) आर्टिफिशियल दिए गए माध्यम	
		(i) मोटरों से मिले	तीस
		(ii) मोटरों	तीस
		(ग) संचार उपकरण—	
		(i) रेडियो मशीन उच्च आवृत्ति	एकसौस
		(ii) वाहक पद्धति	

आस्ति का वर्णन	वर्षों की संख्या या अवधि
(ii) टेलीफोन लाइनें और टेलीफोन वाय	
(ख) पूर्व-प्रयत्न तय की गई आस्तियां और ऐसी आस्तियां जिनके लिए इस अनुसूची में व्यवस्था उपलब्ध नहीं किया गया है।	ऐसी व्यक्तिगत अवधि जो राज्य सरकार द्वारा तय की गई अवधि के समय उत्तरे राज्य और उपा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले में व्यवहारित करें।

[फा० सं० 9/21/79-डी० आई/एम० ई० बी०]

एम० रमेश, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ENERGY

(Department of Power)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 1981

**G. S. R. No. 5774(E).**...In exercise of the powers conferred by Sub-paragraph (a) of paragraph VI of the Sixth Schedule to the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948), the Central Government, after consultation with the Authority, hereby notifies that the licensee shall provide for depreciation such sum as is calculated in accordance with the following principles, namely:—

1. Providing of depreciation by licensees—(a) The licensee shall provide for depreciation.

(i) such an amount as would, if set aside annually throughout the prescribed period and accumulated at compound interest at 4 per cent per annum, produce by the end of the prescribed period an amount equal to ninety per cent of the original cost of the asset after taking into account the sums already written off or set aside in the books of the undertaking. Annual interest on the accumulated balance will be allowed as an expense from revenue as well as the annual incremental deposit, or

(ii) such an amount as is arrived at by dividing ninety per cent of the original cost of the asset by the prescribed period.

Provided however, that if a licensee has already opted for a particular method before the commencement of the Electricity (Supply) Amendment Act, 1978 (23 of 1978), he shall continue to follow the same method.

(b) Where any fixed asset ceases to be available for use through obsolescence, inadequacy, superfluity or for any other reason, it shall be described in the books of the licensee as no longer in use and no further depreciation in respect thereof shall be allowed as a charge against revenue.

(c) When any asset has been written down in the books of the undertaking to 10 per cent or less of its original cost, no further depreciation shall be allowed in respect of that asset.

(d) Arrears of depreciation may be written off by equated payments over the remainder of the prescribed period.

2. Period of application of the principles of depreciation—

These principles shall apply to the charging of depreciation for the accounting years commencing on the 1st day of April, 1980

1981 and ending on the 31st day of March, 1981 and 1982 respectively.

Explanation:—In this notification "prescribed period" means—in respect of assets specified in the Schedule to this notification, the number of years or period specified therein, in relation to such asset running in each case from the beginning of the year of account next following that in which the particular asset became available for use in the Business.

## SCHEDULE

Description of asset	Number of years or period
A. Land owned under full title	Infinity
B. Land held under lease—	The period of the lease, or the period remaining unexpired on the assignment of the lease.
(a) for investment in the land.	
(b) for cost of clearing site	The period of the lease remaining unexpired at the date of clearing the site.
C. Assets purchased new—	
(a) Plant and machinery in generating stations, including plant foundations—	
(i) hydro-electric	Thirty-five
(ii) steam-electric	Twenty-five
(iii) diesel-electric	Fifteen
(b) Cooling towers and circulating water systems	Thirty
(c) Hydraulic works forming part of a hydroelectric system, including—	
(i) dams, spillways, weirs, canals, reinforced concrete flumes and siphons	One hundred
(ii) reinforced concrete pipe-line and surge tanks, steel pipe-lines, sluice gates, steel surge tanks, hydraulic control valves and other hydraulic works.	Forty
(d) Buildings and civil engineering works of a permanent character, not mentioned above—	
(i) offices and showrooms	Fifty
(ii) containing thermoelectric generating plant.	Thirty
(iii) containing hydroelectric generating plant	Thirty-five
(iv) temporary erection such as wooden structures	Five
(v) roads other than kuccha roads	One hundred
(vi) others	Fifty
(e) Transformers, transformer kiosks, sub-station equipment and other fixed appa-	

Description of asset	Number of years or period	Description of asset	Number of years or period
ratus (including plant foundations)		(j) Metres	Fifteen
(i) transformers (including foundations) having a rating of 100 kilovolt amperes and over	Thirty-five	(k) self-propelled vehicles	Seven
(ii) others	Twenty-five	(l) Static machine Tools	Twenty
(f) Switchgear, including cable connections.	Twenty	(m) Air conditioning plant	
(ff) Lighting arrestors—		(i) Static	Fifteen
(i) Station type	Twenty	(ii) Portable	Seven
(ii) pole type	Fifteen	(n) (i) Office furniture and fittings.	Twenty
(iii) synchronous condensers	Thirty-five	(ii) Office equipment	Ten
(g) Batteries	Ten	(iii) internal wiring, including fittings and apparatus.	Fifteen
(h) (1) Underground Cable including joint boxes and dis-connecting boxes.	Forty	(iv) Street-light fittings	Fifteen
(2) Cable duct system	Sixty	(o) Apparatus let on hire—	
(i) Overhead lines, including supports—		(i) other than motors	Seven
(i) lines on fabricated steel supports operating at nominal voltages higher than 66 kilovolts.	Thirty-five	(ii) motors	Twenty
(ii) lines on steel supports operating at nominal voltages, higher than 13.2 kilovolts but not exceeding 66 kilovolts.	Thirty	(p) Communication equipment	
(iii) lines on steel or reinforced concrete supports.	Twenty-five	(i) Radio and high frequency carrier system	Fifteen
(iv) lines on treated wood supports.	Twenty	(ii) Telephone lines and telephones.	Twenty
		D Assets purchased second hand and assets not otherwise provided for in this Schedule	Such reasonable period as the State Government determines in each case having regard to the nature, age and condition of the asset at the time of its acquisition by the owner

[F. No. 9/21/79-D. 1/ESB.]

S. RAMESH, Jr. Secy.